

JSLPS द्वारा आयोजित की जा सामुदायिक समन्वयक (प्रशिक्ष) के चयन प्रक्रिया से सम्बंधित आवश्यक सूचना

दिनांक - 03 जून, 2018 को वेबसाइट पर लिखित परीक्षा में उतीर्ण अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन के सम्बन्ध में प्रकाशित सूचना के क्रम में यह सूचना निम्नांकित जिलों के अभ्यर्थियों के लिए है जो JSLPS द्वारा सामुदायिक समन्वयक (प्रशिक्ष) पद हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में सफल हुए हैं और जिनका नाम वेबसाइट पर 24 मई 2018 को जिलेवार टेबल में सफल अभ्यर्थियों के रूप में प्रकाशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में वेबसाइट पर पूर्व प्रकाशित सूचना में निम्नांकित जिलों की तिथियाँ यथावत हैं। मात्र दिनांक - ०८/०६/२०१८ को गिरिडीह जिला के अभ्यर्थियों हेतु तिथि को UGC-NET के परीक्षा के कारण परीक्षा केंद्र की अनुपलब्धता की वजह से दिनांक- १६ एवं १७ जुलाई, २०१८ को पुनर्निर्धारित किया गया है। तदनुसूच संशोधित कार्यक्रम निम्नवत है।

सम्बंधित जिलों के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि लिखित परीक्षा में उतीर्ण अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन (Documentation Verification) की प्रक्रिया हेतु शेष जिलों के लिए पूर्वनिर्धारित तिथियाँ एवं गिरिडीह जिला के लिए संशोधित तिथि की सारणी निम्नवत है:

Sl. No.	District	Location	Dates	Venue	Reporting Time
1	West Singhbhum	Ranchi	3 July'18	Cambrian Public School, Opposite S.S. Memorial College, Kanke Road, Ranchi - 834008	2.30 PM
2	Saraikela	Ranchi	4 July'18		2.30 PM
3	Hazaribagh	Ranchi	5 July'18		2.30 PM
4	Dumka	Ranchi	6 July'18		2.30 PM
9	Giridih	Ranchi	16-17 July'18		2.30 PM
5	Bokaro	Ranchi	10 July'18	Cambrian Public School, Opposite S.S. Memorial College, Kanke Road, Ranchi - 834008 & St. Aloysius Inter College, Dr Camil Bulcke Path (Purulia Road), Ranchi - 834001	2.30 PM
6	Dhanbad	Ranchi	11 July'18		2.30 PM
7	Deoghar	Ranchi	12 July'18		2.30 PM
8	Palamu	Ranchi	15 July'18		2.30 PM

उपरोक्त टेबल में जिन जिलों हेतु दो दिन या दो केंद्र निर्धारित किये गए हैं, वहां रोल नंबर के अनुसार सम्बंधित अभ्यर्थियों को बुलाया जायेगा। इसकी सूचना भी अगले कुछ दिनों में वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी जाएगी। साथ ही इसकी सूचना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सम्बंधित अभ्यर्थी को भेजी जाएगी।

तिथि में किसी प्रकार के बदलाव की दशा में अभ्यर्थी को SMS द्वारा सूचित किया जायेगा। साथ ही इसकी सूचना वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दी जाएगी।

सभी सम्बंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है उपरोक्त समय सारणी (दिनांक तथा रिपोर्टिंग समय) के अनुसार और निर्दिष्ट स्थान (दस्तावेज सत्यापन के लिए निर्धारित केंद्र) पर निश्चित रूप से पहुँच कर अपने दस्तावेजों का सत्यापन सुनिश्चित करें। जैसा की 24 मई, 2018 को वेबसाइट पर प्रकाशित सूचना में स्पष्ट किया गया है, सम्बद्ध अभ्यर्थियों को स्वयं निम्न दस्तावेजों की **मूल (original) और स्व अभिप्रमाणित (self-attested)** छाया-प्रति के साथ उपस्थित होना आवश्यक होगा।

1. लिखित परिक्ष हेतु निर्गत किया गया प्रवेश पत्र
2. मैट्रिक परीक्षा का अंक पात्र एवं प्रमाण पत्र
3. मान्य Domicile Certificate जो अनुमंडल पदाधिकारी या उससे उच्च लोक सेवा अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।
4. जाति प्रमाण पत्र जो अनुमंडल पदाधिकारी या उससे उच्च लोक सेवा अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।
5. आधार/वोटर ID अथवा अन्य मान्य व्यक्तिगत फोटो प्रमाण पत्र
6. हाल का १ रंगीन पासपोर्ट/ साइज फोटो

कृपया निम्न शर्तों को ध्यान से पढ़ें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की इन शर्तों के अनुपालन में कोई समझौता नहीं किया जायेगा।

1. जिलेवार निर्धारित तिथि और समय के अलावा सम्बंधित जिले के अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए कोई अलग समय नहीं दिया जायेगा। अभ्यर्थी इसका विशेष ध्यान रखें। इस संबंध में कोई अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।
2. बताये गए दस्तावेजों के नहीं लाये जाने की स्थिति में अथवा स्वयं इन सभी दस्तावेज के साथ उपस्थित नहीं होने की दशा में सम्बंधित अभ्यर्थी की पात्रता चयन प्रक्रिया के लिए रद्द मानी जाएगी।
3. प्रस्तुत दस्तावेजों के विवरण को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए सूचनाओं के साथ मिलान किया जायेगा। किसी भी प्रकार की विसंगति अथवा त्रुटिपूर्ण / सुचना होने की दशा में भी सम्बंधित अभ्यर्थी की पात्रता चयन प्रक्रिया के लिए रद्द मानी जाएगी।
4. प्रत्येक दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए रिपोर्टिंग समय उपरोक्त सारणी में अंकित है। सम्बंधित अभ्यर्थियों को दिए गए रिपोर्टिंग समय के अनुसार सभी दस्तावेजों सहित स्वयं रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा।
5. अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक निर्धारित प्रपत्र में अपना बायो डाटा भरना होगा। JSLPS के वेबसाइट पर बायो डाटा का प्रपत्र दिया गया है। अभ्यर्थी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको भर कर निर्धारित तिथि को आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो सकते हैं।
6. इस प्रक्रिया में भाग लेने हेतु कोई भी भत्ता देय नहीं होगा।
7. यह प्रक्रिया अंतिम चयन नहीं माना जाये। दस्तावेज सत्यापन के बाद अन्य सभी निर्धारित मापदंडों के साथ अंतिम सूची जिलेवार आरक्षण रोस्टर के साथ तैयार करके बाद में प्रकाशित की जाएगी।